

Respecting Choices®

अग्रिम देखभाल योजना

अपने इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर
दस्तावेज़ अपलोड करें।



इन तीन तरीकों
में से एक का
इस्तेमाल करें:

फ़ैक्स: **947.522.0473**

सबमिट करें: **MyChart** के माध्यम से

ईमेल: **cheadvancedirectivefax@corewellhealth.org**

अग्रिम देखभाल योजना क्या है?

उन्नत देखभाल योजना वह प्रक्रिया है, जो बातचीत के साथ शुरू होती है। Respecting Choices के प्रमाणित सुविधा प्रदानकर्ता आपका प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। इसमें आपके चुने हुए रोगी हिमायती और डॉक्टर के साथ अपने मूल्यों और विश्वासों को साझा करना शामिल है। सफलतापूर्वक समापन के परिणामस्वरूप अग्रिम निर्देशात्मक कानूनी दस्तावेज़ तैयार होता है।

अग्रिम निर्देश क्या है?

अग्रिम निर्देश एक कानूनी दस्तावेज़ होता है, जिसमें उस स्थिति के लिए इलाज के लिए आपकी विशिष्ट वरीयताओं का वर्णन होता है, जब आप खुद ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। आपके अग्रिम निर्देश को स्वास्थ्य देखभाल के लिए टिकाऊ पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाएगा, जब आप इतने बीमार या घायल हो जाते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को खुद संप्रेषित नहीं कर सकते। अग्रिम निर्देश आपके लिए उस स्थिति के लिए निर्णय लेने के लिए रोगी हिमायती को सूचीबद्ध करने के साथ शुरू होता है, जब आप अब इसके लिए सक्षम नहीं होते और इसमें कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन (CPR), जीवन समर्थन और अंग दान के लिए वरीयताओं के बारे में अतिरिक्त वैकल्पिक प्रलेखन शामिल होता है।

अपनी इच्छाओं और विकल्पों को साझा करना

- अपने परिवार और करीबी दोस्तों को बताएँ कि आपने यह दस्तावेज़ तैयार कर लिया है। उन्हें बताएँ कि आपका रोगी हिमायती कौन है(हैं) और आपकी स्वास्थ्य देखभाल की इच्छाएँ क्या हैं।
- जब भी आपको स्वास्थ्य देखभाल परिसर में भर्ती कराया जाता है, तो अपने अग्रिम निर्देश की प्रति अपने साथ रखें और कहें कि इसे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।
- अपने अग्रिम निर्देश की प्रति ऐसी जगह रखें, जहाँ यह आसानी से मिल सके।
- आप अपने अग्रिम निर्देश में किसी भी समय बदलाव कर सकते हैं।

हम अनुग्रह करते हैं कि आप अपने दस्तावेज़ को हर कुछ वर्षों में अपडेट करते रहें, या **5D नियम** का पालन करें:

- आपके जीवन के हर नए **दशक** (decade)।
- किसी प्रियजन की **मृत्यु** (death) के बाद।
- **तलाक** (divorce) के बाद।
- किसी महत्वपूर्ण **निदान** (diagnosis) के बाद।
- कार्यक्षमता में किसी महत्वपूर्ण **गिरावट** (decline) के बाद।

अतिरिक्त जानकारी के साथ अग्रिम निर्देश फ़ॉर्म, ऑनलाइन मिल सकता है।



प्रमाणित फ़ैसिलिटेर के साथ बात करने के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें: फ़ोन: **947.522.1948**

ईमेल: **advancecareplanningeast@corewellhealth.org**

वेबसाइट: **beaumont.org/respecting-choices**

